



<b>Date:</b>	<b>Question bank - 6</b>	<b>Subject:Hindi</b>
<b>Class:VI</b>	<b>जैसे को तैसा</b>	<b>Max. Marks</b>

\* निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

१ सेठ से बदला लेने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय भी हो सकता था । कम से कम एक अन्य उपाय बताओ ।

२ चौधरी के बेटे की चारित्रिक विशेषताएँ लिखो ।

३ इस कहानी में क्या संदेश निहित है ?

अपठित गद्यांश

कही - सुनी बातों को बिना परखे उन पर विश्वास करना अन्धविश्वास है । बिल्ली का रास्ता काटना, शुभ कार्य शुरू होने से पहले छींकने को अशुभ मानना राह में खाली मटका देखना और उसे अच्छा न मानना अंधविश्वास के ही रूप हैं । गांवों में आज भी ओझा को भूत उतारते देखा जा सकता है । चेचक जैसी बीमारियों का कारण देवी का कोप माना जाता रहा है । वस्तुतः इस वैज्ञानिक युग में ऐसी मान्यताओं को तिलांजलि दे देनी चाहिए । कार्य की असफलता इसलिए नहीं हुई की आपके कार्य पर जाने से पहले किसी ने छींक दिया था, बल्कि इसलिए हुई है, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी थी। आपने समय और कार्य में उचित सम्बन्ध स्थापित नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ की आपकी सफलता ने असफलता का चोला पहन लिया । अब इस असफलता के लिए आप अंधविश्वास की मान्यता देकर अपना पल्लू नहीं बचा सकते । यदि

सफल होना है तो, मनरूपी दर्पण में असफलता के सच्चे कारणों को खोज लें ।  
आप सफलता का द्वार तभी खोल पाएँगे , जब चाभी सही लगाएँगे।

उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

१ वर्तमान युग में माने जानेवाले चार अंधविश्वास लिखिए ।

२ लेखिका के अनुसार कार्य की असफलता के क्या - क्या कारण हो सकते हैं ?

३ सफल होने के लिए क्या करना होगा ?

४ गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए ।

\* इस कहानी में सेठ से बदला लेने के लिए कोई दूसरा उपाय भी हो सकता था  
। कम से कम एक अन्य उपाय बताओ ।

\* निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ ।

१. शत्रु - \_\_\_\_\_

२ राष्ट्र - \_\_\_\_\_

३ नेता - \_\_\_\_\_

४. व्यक्ति - \_\_\_\_\_

५. मित्र - \_\_\_\_\_

\* क्रिया की परिभाषा : जो पद कुछ होने या करने का बोध कराते हैं , वे क्रिया कहलाते हैं ।

\* वाक्यों की पहचान सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया के रूप में करो :

१. चोर पकड़ा गया । \_\_\_\_\_

२. रमेश इस किताब को पढ़ सकता है । \_\_\_\_\_